

## तिमाही औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण: जुलाई-सितंबर 2012 (59वां दौर) \*

इस लेख में जुलाई-सितंबर 2012 तिमाही के लिए किए गए औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण के परिणाम दिए गए हैं, जो कि श्रृंखला का 59वां दौर है। इसमें जुलाई-सितंबर 2012 तिमाही (2012-13 की दूसरी तिमाही) के लिए विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों की कारोबारी स्थिति का आकलन तथा अक्टूबर-दिसंबर 2012 तिमाही (2012-13 की तीसरी तिमाही) की उनकी प्रत्याशाएं दी गयी हैं। सर्वेक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि वर्ष 2012-13 की दूसरी तिमाही में कारोबारी गतिविधि में कमजोरी आई है जिसे सर्वेक्षण के पिछले दौर की संभावना में दर्शाया गया था। कारोबार प्रत्याशा सूचकांक (बीईआई), जो कि विभिन्न कारोबारी मानदंडों पर आधारित एक संयुक्त सूचकांक है, में मूल्यांकन तिमाही के दौरान गिरावट आई और यह गिरकर 2008-09 की तीसरी तिमाही के दौरान हुए वित्तीय संकट के समय के प्रारंभिक स्तर पर पहुंच गया। तथापि, आगामी तिमाही अर्थात् 2012-13 की तीसरी तिमाही की संभावना थोड़ी-सी बेहतर है। सूचकांक अभी भी वृद्धि वाले दायरे में ही बना हुआ है (अर्थात् 100 के स्तर से अधिक, जो कि संकुचन तथा विस्तार का विभाजक है)।

### I. भूमिका

भारतीय रिजर्व बैंक 1998 से तिमाही आधार पर औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण करता आ रहा है। सर्वेक्षण से विनिर्माण कार्यकलापों में जुड़ी पब्लिक तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के अपने निष्पादन तथा संभावनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। वर्तमान तिमाही की कारोबारी स्थिति तथा आगामी तिमाही की प्रत्याशा का मूल्यांकन 20 प्रमुख मानदंडों<sup>1</sup> पर गुणात्मक उत्तरों के आधार पर किया जाता है जिनमें विस्तृत रूप से मांग स्थिति और वित्तीय स्थिति शामिल हैं।

\* सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग के उद्यम सर्वेक्षण प्रभाग में तैयार किया गया। सर्वेक्षण के 58वें दौर (अप्रैल-जून 2012) के आधार पर तैयार किया गया इस विषय पर पिछला लेख बुलेटिन के अगस्त 2012 अंक में प्रकाशित किया गया है। सर्वेक्षण के परिणाम उत्तरदाताओं से प्राप्त जवाबों पर आधारित हैं इसलिए जरूरी नहीं है कि भारतीय रिजर्व बैंक इससे सहमत हो।

<sup>1</sup> सर्वेक्षण की अनुसूची के ब्लॉक 5 में दिए मानदंड बुलेटिन के फरवरी 2012 अंक में प्रकाशित लेख *तिमाही औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण: अक्टूबर-दिसंबर 2011 (56वां दौर)* में दिए गए हैं।

यह सर्वेक्षण नीति-निर्माताओं, विश्लेषकों तथा कारोबारियों के लिए अनुमान उपलब्ध कराता है।

### II. आंकड़ों की व्याप्ति तथा कार्यपद्धति

सर्वेक्षण अनुसूची में विनिर्माण क्षेत्र की 2,000 पब्लिक तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां शामिल हैं जिनमें से अधिकांश की चुकता पूंजी 5 मिलियन रुपये से अधिक है। उत्तरदाताओं के पैनल का चुनाव किया गया ताकि आकार और उद्योग का अच्छा प्रतिनिधित्व हो। सर्वेक्षण का फील्डवर्क एक बाहरी एजेंसी द्वारा कराया जाता है। वर्तमान दौर के सर्वेक्षण में 1,561 विनिर्माण कंपनियों से उत्तर प्राप्त हुए (उत्तर की प्रतिशत दर लगभग 78)।

विश्लेषण विभिन्न मानदंडों से संबंधित 'निवल उत्तरों' पर आधारित है। 'निवल उत्तर' आशावादी (अर्थात् सकारात्मक) और निराशावादी (अर्थात् नकारात्मक) उत्तरों के बीच का प्रतिशत अंतर है और यथापूर्व स्थिति (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं) वाले उत्तरों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। उच्चतर 'निवल उत्तर' से आशावाद के उच्चतर स्तर और इसके विपरीत की स्थिति का पता चलता है।

### III. सर्वेक्षण परिणाम


#### III.1 मांग की स्थिति

सर्वेक्षण में भारतीय विनिर्माताओं से मांग संबंधी प्रमुख मानदंडों यथा- उत्पादन, आदेश बही, क्षमता के उपयोग, इन्वेंटरी, निर्यातों तथा आयातों से संबंधित स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाती है। उपर्युक्त सभी मानदंडों के विश्लेषण से पता चलता है कि 2012-13 की दूसरी तिमाही के दौरान मांग स्थिति में गिरावट आई। हांलाकि, 2012-13 की तीसरी तिमाही की संभावना में मामूली सुधार हुआ।


#### III.1.1 उत्पादन

2011-12 की चौथी तिमाही को छोड़कर पिछले वर्ष से उत्पादन संबंधी मूल्यांकित निवल उत्तर में लगातार गिरावट आई। एक तिमाही

चार्ट 1: उत्पादन



चार्ट 2: आदेश बही




बाद की संभावना ने भी 2011-12 में कम आशावाद दिखाया 2012-13 की पहली दो तिमाहियों में यह और अधिक खराब रही। हांलाकि, 2012-13 की तीसरी तिमाही की संभावना में मामूली सुधार हुआ। आदेश बही, क्षमता उपयोग आदि जैसे अन्य चरों के संबंध में भी यही स्थिति थी (चार्ट 1 से 4, सारणी 1,2,3 और 4)। अनुकूल निवल उत्तर लगातार संवृद्धि का संकेत है।


### III.1.2 निर्यात तथा आयात

निर्यात और आयात संबंधी निवल उत्तर आमतौर पर उत्पादन या आदेश बही की तुलना में कम रहे हैं। 2012-13 की दूसरी तिमाही की मूल्यांकन तिमाही के दौरान स्थिति और भी खराब हो गई। 2012-13 की तीसरी तिमाही की संभावना में भी कम आशादायक थी (सारणी 5 तथा 6 और चार्ट 5 तथा 6)।

चार्ट 3: लंबित आदेश



चार्ट 4: क्षमता का उपयोग



**सारणी 1: उत्पादन के संबंध में मूल्यांकन तथा प्रत्याशाएं**

(प्रतिशत उत्तर) #

सर्वेक्षण तिमाही	कुल उत्तर	वर्तमान तिमाही का मूल्यांकन				अगली तिमाही के लिए प्रत्याशा			
		वृद्धि	कमी	अपरिवर्तित	निवल उत्तर	वृद्धि	कमी	अपरिवर्तित	निवल उत्तर
अक्तू-दिसं 09	1,256	44.0	15.2	40.8	28.9	46.0	11.0	43.0	35.0
जन-मार्च 10	1,079	49.0	12.5	38.5	36.5	48.8	8.8	42.3	40.0
अप्रै-जून 10	1,092	48.4	13.0	38.6	35.4	45.8	9.9	44.3	35.9
जुला-सितं 10	1,403	51.6	11.6	36.8	40.0	49.7	9.4	40.9	40.2
अक्तू-दिसं 10	1,561	53.9	10.0	36.0	43.9	55.9	6.8	37.3	49.1
जन-मार्च 11	1,524	52.1	10.7	37.1	41.4	55.4	6.8	37.7	48.6
अप्रै-जून 11	1,504	47.8	15.7	36.5	32.1	49.1	9.1	41.8	40.0
जुला-सितं 11	1,528	40.8	18.3	40.9	22.6	49.6	9.0	41.5	40.6
अक्तू-दिसं 11	1,450	42.2	16.9	41.0	25.3	49.5	9.5	41.0	39.9
जन-मार्च 12	1,234	45.6	12.5	41.9	33.1	49.8	9.5	40.7	40.4
अप्रै-जून 12	1,404	38.8	18.5	42.7	20.3	45.4	10.6	44.0	34.7
जुला-सितं 12	1,561	37.9	19.2	42.9	18.8	45.4	11.7	42.9	33.6
अक्तू-दिसं 12						46.1	10.4	43.4	35.7

# पूर्णांकन के कारण हो सकता है कि प्रतिशत का जोड़ 100 न हो और यही बात पूरे लेख पर लागू है।  
उत्पादन में 'वृद्धि' होना आशावादिता दर्शाता है।

**III.1.3 कच्चे माल और तैयार माल की इन्वेंटरी**

आमतौर पर लगभग 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने तिमाही आधार पर कच्चे माल और तैयार माल की इन्वेंटरी के औसत स्तर में कोई परिवर्तन न होने की बात कही है। शेष में से कुछ अधिक उत्तरदाताओं ने मूल्यांकन तिमाही के दौरान इन्वेंटरी के औसत स्तर से

अधिक रहने की बात कही है। किन्तु, यह आगामी तिमाही की संभावना में नहीं दिखता है (सारणी 7)।

**III.1.4 रोजगार की स्थिति**

सर्वेक्षण के विभिन्न दौर में 90 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाता कंपनियों ने श्रमिकों की संख्या समान स्तर पर रहने या रोजगार के

**सारणी 2: आदेश बहियों के संबंध में मूल्यांकन तथा प्रत्याशाएं**

(प्रतिशत उत्तर) #

सर्वेक्षण तिमाही	कुल उत्तर	वर्तमान तिमाही का मूल्यांकन				अगली तिमाही के लिए प्रत्याशा			
		वृद्धि	कमी	अपरिवर्तित	निवल उत्तर	वृद्धि	कमी	अपरिवर्तित	निवल उत्तर
अक्तू-दिसं 09	1,256	39.5	13.6	46.8	25.9	43.5	11.2	45.3	32.3
जन-मार्च 10	1,079	43.5	11.6	44.9	31.9	44.8	9.1	46.1	35.8
अप्रै-जून 10	1,092	41.8	10.5	47.7	31.3	42.3	8.9	48.8	33.4
जुला-सितं 10	1,403	45.4	9.3	45.3	36.1	44.4	8.1	47.5	36.3
अक्तू-दिसं 10	1,561	46.9	9.1	44.0	37.9	49.8	5.1	45.1	44.8
जन-मार्च 11	1,524	44.8	10.1	45.2	34.7	49.6	5.6	44.8	44.0
अप्रै-जून 11	1,504	42.5	14.4	43.0	28.1	45.9	7.5	46.6	38.4
जुला-सितं 11	1,528	37.9	17.6	44.5	20.3	45.4	9.4	45.2	35.9
अक्तू-दिसं 11	1,450	36.9	18.5	44.6	18.4	43.5	10.1	46.4	33.4
जन-मार्च 12	1,234	38.9	14.1	47.0	24.8	42.3	11.0	46.7	31.3
अप्रै-जून 12	1,404	34.2	17.3	48.5	16.9	39.3	9.8	50.9	29.5
जुला-सितं 12	1,561	31.9	19.8	48.3	12.0	41.0	11.1	47.9	29.9
अक्तू-दिसं 12						41.2	10.9	48.0	30.3

आदेश बहियों में 'वृद्धि' होना आशावादिता दर्शाता है।

## सारणी 3: लंबित आदेशों के संबंध में मूल्यांकन तथा प्रत्याशाएं

(प्रतिशत उत्तर) #

सर्वेक्षण तिमाही	कुल उत्तर	वर्तमान तिमाही का मूल्यांकन				अगली तिमाही के लिए प्रत्याशा			
		सामान्य से कम	सामान्य से अधिक	सामान्य	निवल उत्तर	सामान्य से कम	सामान्य से अधिक	सामान्य	निवल उत्तर
अक्तू-दिसं 09	1.256	17.1	5.6	77.3	11.6	15.2	4.2	80.6	11.0
जन-मार्च 10	1.079	15.5	6.7	77.8	8.8	12.2	6.5	81.3	5.7
अप्रै-जून 10	1.092	14.3	7.4	78.3	6.9	12.9	6.4	80.7	6.5
जुला-सितं 10	1.403	12.0	6.9	81.1	5.1	11.4	7.3	81.3	4.2
अक्तू-दिसं 10	1.561	11.6	7.6	80.8	3.9	8.8	7.3	83.9	1.5
जन-मार्च 11	1.524	12.5	6.9	80.6	5.5	9.8	8.1	82.1	1.7
अप्रै-जून 11	1.504	13.3	6.7	80.0	6.5	10.4	6.6	83.0	3.9
जुला-सितं 11	1.528	18.0	4.7	77.3	13.3	11.8	7.2	81.0	4.5
अक्तू-दिसं 11	1.450	17.5	5.0	77.5	12.6	13.6	6.0	80.4	7.6
जन-मार्च 12	1.234	15.9	5.4	78.7	10.5	13.7	6.5	79.8	7.3
अप्रै-जून 12	1.404	17.0	5.7	77.3	11.3	13.3	4.6	82.1	8.8
जुला-सितं 12	1.561	18.7	5.6	75.7	13.1	14.6	6.2	79.2	8.4
अक्तू-दिसं 12						14.4	7.0	78.6	7.4

'सामान्य से कम' लंबित आदेश आशावादिता दर्शाते हैं।

स्तर में बढ़ोतरी की रिपोर्ट की। हांलाकि, पिछले दो दौर में कुछ अधिक उत्तरदाताओं ने अपने श्रमिकों में कमी होने का अनुमान लगाया। आगे, प्रवृत्ति विपरीत रही है और 2012-13 की तीसरी तिमाही के दौरान रोजगार के संबंध में निवल उत्तरों में मामूली बढ़ोतरी हुई (सारणी 8, चार्ट 7)।

## सारणी 4: क्षमता के उपयोग संबंधी मूल्यांकन तथा प्रत्याशाएं

(प्रतिशत उत्तर) #


मानदंड	विकल्प	तिमाही का मूल्यांकन		तिमाही की प्रत्याशा	
		अप्रै-जून 12	जुला-सितं. 12	जुला-सितं. 12	अक्तू.-दिसं. 12
क्षमता का उपयोग (मुख्य उत्पाद)	वृद्धि	25.8	24.0	30.4	30.4
	अपरिवर्तित	57.1	58.3	57.6	59.3
	कमी	17.1	17.7	12.0	10.3
	निवल उत्तर	8.6	6.3	18.4	20.0
क्षमता के उपयोग का स्तर (पिछली 4 तिमाहियों के औसत की तुलना में)	सामान्य से ऊपर	10.1	9.7	11.4	10.3
	सामान्य	71.9	71.3	75.6	77.4
	सामान्य से कम	17.9	18.9	13.0	12.3
	निवल उत्तर	-7.8	-9.2	-1.5	-2.0
उत्पादन क्षमता का मूल्यांकन (अगले 6 माह की प्रत्याशित मांग के संबंध में)	पर्याप्त से अधिक	12.4	13.1	13.0	13.0
	पर्याप्त	79.6	79.0	80.0	80.5
	पर्याप्त से कम	8.0	7.9	7.1	6.4
	निवल उत्तर	4.4	5.2	5.9	6.6

क्षमता के उपयोग में 'वृद्धि' होना आशावादिता दर्शाता है।

## III.2 वित्तीय स्थिति

सर्वेक्षण में वित्तीय स्थितियों के बारे में विभिन्न मानदंडों के आधार पर धारणाओं का मूल्यांकन किया जाता है। जहां उत्तरदाताओं द्वारा समग्र वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, वहीं उत्तर, विशेष रूप से वित्त की उपलब्धता ( ईक्विटी और ऋण दोनों रूप में), बाह्य वित्त की लागत, कच्चे माल की लागत, बिक्री मूल्य तथा लाभ मार्जिन के संबंध में प्राप्त किए जाते हैं।

## चार्ट 5: निर्यात



## सारणी 5: निर्यात के संबंध में मूल्यांकन तथा प्रत्याशाएं

(प्रतिशत उत्तर) #

तिमाही सर्वेक्षण	कुल उत्तर	वर्तमान तिमाही का मूल्यांकन				अगली तिमाही के लिए प्रत्याशा			
		वृद्धि	कमी	अपरिवर्तित	निवल उत्तर	वृद्धि	कमी	अपरिवर्तित	निवल उत्तर
अक्तू-दिसं 09	1.256	27.3	18.1	54.6	9.2	27.0	14.5	58.5	12.5
जन-मार्च 10	1.079	28.9	16.2	54.9	12.7	31.2	11.0	57.8	20.2
अप्रै-जून 10	1.092	29.1	13.7	57.2	15.3	30.0	11.5	58.5	18.5
जुला-सितं 10	1.403	31.8	11.8	56.5	20.0	30.8	10.1	59.1	20.7
अक्तू-दिसं 10	1.561	34.4	11.4	54.2	23.1	34.4	8.3	57.3	26.1
जन-मार्च 11	1.524	32.1	13.2	54.7	18.9	34.4	8.1	57.5	26.3
अप्रै-जून 11	1.504	31.8	13.6	54.6	18.2	33.4	9.4	57.1	24.0
जुला-सितं 11	1.528	28.7	15.7	56.6	13.1	35.1	9.2	55.7	25.8
अक्तू-दिसं 11	1.450	26.8	15.3	57.9	11.5	32.7	10.6	56.8	22.1
जन-मार्च 12	1.234	27.8	13.6	58.6	14.2	29.0	10.4	60.6	18.6
अप्रै-जून 12	1.404	25.7	14.9	59.4	10.8	30.1	9.4	60.5	20.7
जुला-सितं 12	1.561	25.3	15.2	59.5	10.0	31.0	10.5	58.5	20.5
अक्तू-दिसं 12						29.0	10.9	60.1	18.0

निर्यात में 'वृद्धि' होना आशावादिता दर्शाता है।


## III.2.1 समग्र वित्तीय स्थिति

2010-11 की चौथी तिमाही से समग्र वित्तीय स्थिति के आशावादी स्तर में गिरावट हो रही है और मूल्यांकन तिमाही के दौरान इसमें और अधिक गिरावट देखी गई। आगामी तिमाही में इसमें मामूली सुधार होने का अनुमान है (सारणी 9, चार्ट 8)।

## III.2.2 वित्त की उपलब्धता

वित्त की उपलब्धता संबंधी धारणा में भी समान प्रवृत्ति देखी गई (सारणी 11, चार्ट 9)। जहां 2010-11 की चौथी तिमाही से कुछ अधिक उत्तरदाताओं ने वित्त की उपलब्धता की स्थिति खराब होने की बात कही, वहीं वित्तीय स्थिति में सुधार के संबंध में प्राप्त उत्तरों में भी गिरावट देखी गई है।

## चार्ट 6: आयात



## सारणी 6: आयातों के संबंध में मूल्यांकन तथा प्रत्याशाएं

(प्रतिशत उत्तर) #

तिमाही सर्वेक्षण	कुल उत्तर	वर्तमान तिमाही का मूल्यांकन				अगली तिमाही के लिए प्रत्याशा			
		वृद्धि	कमी	अपरिवर्तित	निवल उत्तर	वृद्धि	कमी	अपरिवर्तित	निवल उत्तर
अक्तू-दिसं 09	1.256	23.3	10.3	66.5	13.0	21.3	9.8	68.9	11.5
जन-मार्च 10	1.079	25.5	8.4	66.1	17.1	23.4	6.5	70.1	16.9
अप्रै-जून 10	1.092	27.7	6.8	65.6	20.9	22.9	5.9	71.2	17.1
जुला-सितं 10	1.403	28.6	6.6	64.7	22.0	27.0	5.4	67.6	21.7
अक्तू-दिसं 10	1.561	27.3	6.4	66.3	20.9	27.3	5.1	67.6	22.2
जन-मार्च 11	1.524	27.0	7.1	65.8	19.9	26.7	5.4	67.9	21.3
अप्रै-जून 11	1.504	25.0	7.4	67.6	17.6	25.1	6.2	68.6	18.9
जुला-सितं 11	1.528	23.3	7.6	69.2	15.7	25.1	6.1	68.9	19.0
अक्तू-दिसं 11	1.450	20.8	9.3	69.9	11.6	23.1	6.2	70.7	16.9
जन-मार्च 12	1.234	22.5	8.0	69.5	14.4	23.0	7.5	69.4	15.5
अप्रै-जून 12	1.404	21.8	10.1	68.1	11.6	22.4	6.7	70.8	15.7
जुला-सितं 12	1.561	20.7	10.9	68.5	9.8	22.9	7.4	69.7	15.5
अक्तू-दिसं 12						22.1	8.1	69.8	14.0

आयातों में 'वृद्धि' होना आशावादिता दर्शाता है।

### सारणी 7: इन्वेंटरी के स्तर (कच्चा माल तथा तैयार माल) के संबंध में मूल्यांकन और प्रत्याशाएं

(प्रतिशत उत्तर) #


मानदंड	विकल्प	तिमाही का मूल्यांकन		तिमाही की प्रत्याशा	
		अप्रै-जून 12	जुला-सितं. 12	जुला-सितं. 12	अक्तू.-दिसं. 12
कच्चे माल की इन्वेंटरी	औसत से कम	8.0	6.9	6.6	5.1
	औसत	81.0	80.9	83.7	85.2
	औसत से ऊपर	11.0	12.3	9.7	9.7
	निवल उत्तर	-2.9	-5.4	-3.1	-4.7
तैयार वस्तुओं की इन्वेंटरी	औसत से कम	6.8	7.0	7.2	6.1
	औसत	81.6	78.5	83.6	83.9
	औसत से ऊपर	11.7	14.5	9.2	10.0
	निवल उत्तर	-4.9	-7.4	-2.1	-4.0

कच्चे माल और तैयार माल की 'औसत से कम' इन्वेंटरी आशावादिता दर्शाती है।

### III.2.3 वित्त की लागत

वित्त की लागत संबंधी धारणा लंबे समय से नकारात्मक बनी हुई है जो कि 2011-12 की तीसरी तिमाही में सबसे कम स्तर पर पहुंच गई। उसके बाद निवल उत्तर में धीरे-धीरे से सुधार हुआ और पिछली तिमाही की तुलना में वित्त की अधिक लागत का अनुभव करने वाले उत्तरदाताओं के प्रतिशत में 2012-13 की दूसरी तिमाही में

### चार्ट 7: रोजगार



कमी आई। उसी प्रकार, उत्तरदाताओं के कम प्रतिशत ने 2012-13 की तीसरी तिमाही में वित्त की लागत में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया (सारणी 12)।

### III.2.4 कच्चे माल की लागत

पिछले कई वर्षों से कच्चे माल की लागत के संबंध में धारणा बहुत अधिक नकारात्मक बनी हुई है। हांलाकि, सर्वेक्षण के वर्तमान

### सारणी 8: रोजगार संबंधी संभावना के बारे में मूल्यांकन तथा प्रत्याशाएं

(प्रतिशत उत्तर) #

सर्वेक्षण तिमाही	कुल उत्तर	वर्तमान तिमाही का मूल्यांकन				अगली तिमाही के लिए प्रत्याशा			
		वृद्धि	कमी	अपरिवर्तित	निवल उत्तर	वृद्धि	कमी	अपरिवर्तित	निवल उत्तर
अक्तू-दिसं 09	1,256	18.2	7.9	73.9	10.3	15.8	7.0	77.2	8.8
जन-मार्च 10	1,079	21.0	7.3	71.7	13.7	18.2	6.1	75.6	12.1
अप्रै-जून 10	1,092	21.7	7.0	71.3	14.7	19.5	5.9	74.7	13.6
जुला-सितं 10	1,403	25.1	6.3	68.6	18.7	21.8	5.1	73.1	16.8
अक्तू-दिसं 10	1,561	24.8	5.4	69.9	19.4	24.7	3.6	71.7	21.0
जन-मार्च 11	1,524	24.3	5.6	70.1	18.7	25.0	4.3	70.7	20.6
अप्रै-जून 11	1,504	24.3	6.1	69.6	18.2	23.0	5.6	71.4	17.4
जुला-सितं 11	1,528	22.7	7.1	70.2	15.6	24.0	4.6	71.5	19.4
अक्तू-दिसं 11	1,450	18.9	7.6	73.5	11.3	21.7	5.2	73.1	16.5
जन-मार्च 12	1,234	19.8	6.9	73.3	12.9	19.3	5.7	75.0	13.6
अप्रै-जून 12	1,404	19.8	9.7	70.5	10.0	19.9	5.2	74.9	14.6
जुला-सितं 12	1,561	17.9	9.6	72.5	8.3	20.5	8.3	71.2	12.3
अक्तू-दिसं 12						19.2	5.9	74.9	13.3

रोजगार में 'वृद्धि' होना आशावादिता दर्शाता है।


## सारणी 9: समग्र वित्तीय स्थिति के संबंध में मूल्यांकन तथा प्रत्याशाएं

(प्रतिशत उत्तर) #

सर्वेक्षण तिमाही	कुल उत्तर	वर्तमान तिमाही का मूल्यांकन				अगली तिमाही के लिए प्रत्याशा			
		बेहतर	खराब	अपरिवर्तित	निवल उत्तर	बेहतर	खराब	अपरिवर्तित	निवल उत्तर
अक्तू-दिसं 09	1.256	38.8	9.3	51.8	29.5	40.5	7.0	52.5	33.5
जन-मार्च 10	1.079	42.3	6.5	51.3	35.8	44.3	5.0	50.6	39.3
अप्रै-जून 10	1.092	39.1	6.9	54.0	32.2	41.6	5.3	53.1	36.3
जुला-सितं 10	1.403	38.7	8.1	53.2	30.6	39.7	5.6	54.8	34.1
अक्तू-दिसं 10	1.561	42.8	5.7	51.5	37.1	44.9	5.3	49.7	39.6
जन-मार्च 11	1.524	35.7	8.6	55.8	27.1	45.5	4.4	50.1	41.1
अप्रै-जून 11	1.504	34.5	10.4	55.0	24.1	38.6	5.2	56.1	33.4
जुला-सितं 11	1.528	27.8	16.0	56.2	11.7	37.4	6.8	55.7	30.6
अक्तू-दिसं 11	1.450	28.1	16.9	55.0	11.2	35.5	9.2	55.3	26.3
जन-मार्च 12	1.234	30.4	11.9	57.8	18.5	35.3	10.2	54.5	25.2
अप्रै-जून 12	1.404	27.8	13.5	58.7	14.2	35.7	8.1	56.2	27.7
जुला-सितं 12	1.561	27.1	14.9	58.0	12.2	33.2	9.5	57.3	23.6
अक्तू-दिसं 12						34.8	9.0	56.2	25.8

\*बेहतर\* समग्र वित्तीय स्थिति आशावादिता दर्शाती है।

## चार्ट 8: समग्र वित्तीय स्थिति



दौर में स्थिति में थोड़ा सुधार होने के संकेत हैं। मूल्यांकन/प्रत्याशा तिमाही में मूल्य में बढ़ोतरी की सूचना देने/अनुमान लगाने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत पहले दौर की तुलना में कम हो गया है (सारणी 13, चार्ट 10)।

## III.2.5 बिक्री मूल्य

जहां मूल्यांकन तिमाही के दौरान 60 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने कच्चे माल की लागत में वृद्धि होने की सूचना दी है, वहीं 30 प्रतिशत से कम उत्तरदाता ही अपने बिक्री मूल्य में वृद्धि कर सकें। यह हाल के दिनों में विनिर्माण की मूल्य-निर्धारण क्षमता की कमी होने का संकेत हो सकता है। हांलाकि, बिक्री मूल्य के संबंध में पिछली तीन तिमाहियों में कुछ आशाजनक स्थिति देखी गयी। 2012-13 की तीसरी तिमाही की संभावना इस प्रवृत्ति के विपरीत है (सारणी 14, चार्ट 11)।

## सारणी 10: कार्यशील पूंजी वित्त की आवश्यकता के संबंध में मूल्यांकन तथा संभावनाएं

(प्रतिशत उत्तर) #

सर्वेक्षण तिमाही	कुल उत्तर	वर्तमान तिमाही का मूल्यांकन				अगली तिमाही के लिए प्रत्याशा			
		वृद्धि	कमी	अपरिवर्तित	निवल उत्तर	वृद्धि	कमी	अपरिवर्तित	निवल उत्तर
अक्तू-दिसं 09	1.256	35.2	6.4	58.4	28.8	34.7	4.3	61.0	30.4
जन-मार्च 10	1.079	35.8	5.3	58.9	30.5	36.8	4.0	59.2	32.7
अप्रै-जून 10	1.092	34.7	4.8	60.5	29.9	31.9	4.3	63.8	27.7
जुला-सितं 10	1.403	35.6	6.3	58.1	29.3	35.2	4.1	60.7	31.1
अक्तू-दिसं 10	1.561	41.3	4.1	54.6	37.1	38.4	3.6	58.0	34.8
जन-मार्च 11	1.524	41.0	4.1	54.9	36.9	40.7	3.0	56.3	37.8
अप्रै-जून 11	1.504	41.1	5.4	53.5	35.7	37.4	4.4	58.2	32.9
जुला-सितं 11	1.528	36.8	5.7	57.4	31.1	38.7	5.1	56.3	33.6
अक्तू-दिसं 11	1.450	38.9	5.7	55.4	33.3	38.4	4.2	57.5	34.2
जन-मार्च 12	1.234	40.0	5.1	54.8	34.9	38.0	4.2	57.8	33.8
अप्रै-जून 12	1.404	36.6	6.1	57.3	30.4	36.2	4.3	59.6	31.9
जुला-सितं 12	1.561	37.5	6.8	55.8	30.7	34.9	4.8	60.3	30.1
अक्तू-दिसं 12						37.3	4.4	58.3	32.9

कार्यशील पूंजी वित्त में 'वृद्धि' आशावादिता दर्शाती है।




## सारणी 11: वित्त की उपलब्धता के संबंध में मूल्यांकन तथा प्रत्याशाएं

(प्रतिशत उत्तर) #

सर्वेक्षण तिमाही	कुल उत्तर	वर्तमान तिमाही का मूल्यांकन				अगली तिमाही के लिए प्रत्याशा			
		सुधार	खराब	अपरिवर्तित	निवल उत्तर	सुधार	खराब	अपरिवर्तित	निवल उत्तर
अक्तू-दिसं 09	1,256	30.3	7.2	62.5	23.0	31.7	5.6	62.7	26.1
जन-मार्च 10	1,079	32.1	6.4	61.5	25.7	33.7	4.5	61.8	29.2
अप्रै-जून 10	1,092	32.3	5.9	61.8	26.4	31.2	4.4	64.4	26.8
जुला-सितं 10	1,403	32.6	6.0	61.4	26.6	32.9	4.4	62.7	28.5
अक्तू-दिसं 10	1,561	35.9	5.6	58.4	30.3	35.3	4.0	60.6	31.3
जन-मार्च 11	1,524	32.1	8.3	59.6	23.8	36.4	4.0	59.6	32.3
अप्रै-जून 11	1,504	30.2	8.7	61.1	21.5	32.6	5.3	62.2	27.3
जुला-सितं 11	1,528	24.0	12.0	64.0	12.1	30.0	5.8	64.2	24.2
अक्तू-दिसं 11	1,450	24.1	13.7	62.2	10.4	28.7	8.5	62.7	20.2
जन-मार्च 12	1,234	26.1	10.3	63.5	15.8	28.2	9.1	62.7	19.0
अप्रै-जून 12	1,404	26.2	11.1	62.7	15.0	29.9	7.0	63.1	22.9
जुला-सितं 12	1,561	25.0	11.2	63.8	13.8	28.0	7.7	64.3	20.4
अक्तू-दिसं 12						29.1	7.8	63.1	21.3

वित्त की उपलब्धता में 'सुधार' आशावादिता दर्शाती है।

## चार्ट 9: वित्त की उपलब्धता



## III.2.6 लाभ मार्जिन

कम मूल्य क्षमता की तरह, पिछली कई तिमाहियों में अधिकांश उत्तरदाताओं ने लाभ मार्जिन में कमी होने की सूचना दी है। 2012-13 की दूसरी तिमाही में समान स्थिति बनी रही, जबकि कार्पोरेटों ने अगली तिमाही की अपनी संभावना को एक स्तर पर संतुलित रखा (सारणी 15, चार्ट 12)।

## III.3 समग्र कारोबारी स्थिति

## III.3.1 समग्र कारोबारी स्थिति

समग्र कारोबारी स्थिति के संबंध में कारोबारी आशा 2010-11 की चौथी तिमाही से कम हो रही है। मूल्यांकन तिमाही के दौरान निवल

## सारणी 12: बाह्य वित्त की लागत के संबंध में मूल्यांकन तथा प्रत्याशाएं

(प्रतिशत उत्तर) #

सर्वेक्षण तिमाही	कुल उत्तर	वर्तमान तिमाही का मूल्यांकन				अगली तिमाही के लिए प्रत्याशा			
		कमी	वृद्धि	अपरिवर्तित	निवल उत्तर	कमी	वृद्धि	अपरिवर्तित	निवल उत्तर
जन-मार्च 10	1,079	7.7	23.6	68.7	-15.9	6.8	25.1	68.1	-18.3
अप्रै-जून 10	1,092	7.0	28.9	64.0	-21.9	6.1	26.8	67.1	-20.6
जुला-सितं 10	1,403	5.0	33.2	61.8	-28.3	5.7	29.0	65.3	-23.3
अक्तू-दिसं 10	1,561	4.0	37.9	58.1	-33.9	3.8	32.1	64.2	-28.3
जन-मार्च 11	1,524	3.5	46.0	50.6	-42.5	3.7	35.0	61.3	-31.3
अप्रै-जून 11	1,504	3.5	52.5	44.1	-49.0	3.9	38.9	57.1	-35.0
जुला-सितं 11	1,528	3.5	53.7	42.9	-50.2	4.0	43.7	52.4	-39.7
अक्तू-दिसं 11	1,450	2.9	53.4	43.7	-50.6	3.4	44.4	52.2	-41.0
जन-मार्च 12	1,234	3.8	41.1	55.1	-37.4	4.1	42.8	53.1	-38.8
अप्रै-जून 12	1,404	7.3	37.8	54.9	-30.5	9.9	32.6	57.6	-22.7
जुला-सितं 12	1,561	5.8	33.1	61.1	-27.4	8.6	32.6	58.9	-24.0
अक्तू-दिसं 12						7.6	28.1	64.3	-20.6

वित्त की लागत में 'कमी' आशावादिता दर्शाती है।




## सारणी 13: कच्चे माल की कीमत के संबंध में मूल्यांकन तथा प्रत्याशाएं

(प्रतिशत उत्तर) #

सर्वेक्षण तिमाही	कुल उत्तर	वर्तमान तिमाही का मूल्यांकन				अगली तिमाही के लिए प्रत्याशा			
		कमी	वृद्धि	अपरिवर्तित	निवल उत्तर	कमी	वृद्धि	अपरिवर्तित	निवल उत्तर
अक्तू-दिसं 09	1,256	6.3	53.4	40.3	-47.1	5.0	43.4	51.6	-38.4
जन-मार्च 10	1,079	2.2	62.3	35.5	-60.2	3.6	47.9	48.5	-44.3
अप्रै-जून 10	1,092	2.5	65.2	32.3	-62.7	2.2	50.8	47.0	-48.6
जुला-सितं 10	1,403	3.5	61.8	34.7	-58.3	2.7	52.0	45.2	-49.3
अक्तू-दिसं 10	1,561	2.4	66.3	31.3	-63.9	3.3	52.6	44.1	-49.3
जन-मार्च 11	1,524	1.7	73.7	24.6	-71.9	2.3	55.9	41.8	-53.6
अप्रै-जून 11	1,504	4.5	70.0	25.6	-65.5	2.5	59.5	38.0	-57.0
जुला-सितं 11	1,528	5.3	63.3	31.4	-58.1	4.8	56.6	38.6	-51.7
अक्तू-दिसं 11	1,450	5.1	66.3	28.7	-61.2	3.7	53.4	42.9	-49.7
जन-मार्च 12	1,234	3.4	62.7	33.9	-59.4	4.0	54.1	41.9	-50.1
अप्रै-जून 12	1,404	3.1	66.2	30.7	-63.1	2.2	51.2	46.5	-49.0
जुला-सितं 12	1,561	3.0	62.6	34.4	-59.6	3.5	54.9	41.6	-51.4
अक्तू-दिसं 12						3.5	52.1	44.3	-48.6

कच्चे माल की लागत में 'कमी' आशावादिता दर्शाती है।

## चार्ट 10: कच्चे माल की लागत



उत्तर में और अधिक गिरावट आई। किन्तु आगामी तिमाही में मामूली सुधार होने की उम्मीद थी (सारणी 16, चार्ट 13)।

## III.3.2 कारोबार प्रत्याशा सूचकांक

कारोबार प्रत्याशा सूचकांक प्रत्येक तिमाही में औद्योगिक संभावना के बारे में एक चित्र प्रस्तुत करता है। इस सूचकांक का परिकलन सभी उद्योगों से नौ चुनिंदा मानदंडों पर प्राप्त निवल उत्तरों के भारित औसत के रूप में किया जाता है जहां भारांक सकल मूल्य योजना में उद्योग का हिस्सा होता है। चयन किए गए मानदंड हैं- 'समग्र कारोबारी स्थिति', 'उत्पादन', 'आदेश बही', 'कच्चे माल की इन्वेंटरी', 'तैयार माल की इन्वेंटरी', 'लाभ मार्जिन', 'रोजगार', 'निर्यात' तथा 'क्षमता का उपयोग'। कारोबार प्रत्याशा सूचकांक के


## सारणी 14: बिक्री मूल्य के संबंध में मूल्यांकन तथा प्रत्याशाएं

(प्रतिशत उत्तर) #


सर्वेक्षण तिमाही	कुल उत्तर	वर्तमान तिमाही का मूल्यांकन				अगली तिमाही के लिए प्रत्याशा			
		वृद्धि	कमी	अपरिवर्तित	निवल उत्तर	वृद्धि	कमी	अपरिवर्तित	निवल उत्तर
अक्तू-दिसं 09	1,256	18.6	15.9	65.5	2.6	19.2	13.2	67.6	6.0
जन-मार्च 10	1,079	24.6	12.2	63.2	12.4	20.7	10.9	68.4	9.8
अप्रै-जून 10	1,092	29.3	12.0	58.6	17.3	22.4	9.1	68.5	13.3
जुला-सितं 10	1,403	28.0	14.2	57.8	13.8	24.4	9.2	66.3	15.2
अक्तू-दिसं 10	1,561	30.2	10.0	59.8	20.2	25.7	8.7	65.5	17.0
जन-मार्च 11	1,524	35.7	9.2	55.1	26.5	26.7	8.1	65.2	18.6
अप्रै-जून 11	1,504	35.0	13.4	51.6	21.5	30.6	7.0	62.4	23.7
जुला-सितं 11	1,528	27.3	16.6	56.1	10.7	29.1	10.7	60.2	18.3
अक्तू-दिसं 11	1,450	24.6	15.7	59.7	8.9	26.8	10.8	62.4	16.0
जन-मार्च 12	1,234	25.1	11.6	63.3	13.5	25.0	10.3	64.7	14.7
अप्रै-जून 12	1,404	28.0	10.5	61.4	17.5	26.3	7.3	66.4	19.0
जुला-सितं 12	1,561	29.3	10.9	59.8	18.5	27.8	9.0	63.2	18.8
अक्तू-दिसं 12						25.6	8.3	66.1	17.3

बिक्री मूल्य में 'वृद्धि' होना आशावादिता दर्शाता है।

चार्ट 11: बिक्री मूल्य



चार्ट 12: लाभ मार्जिन



संकलन की पद्धति बुलेटिन के अक्टूबर 2009 अंक में प्रकाशित लेख *तिमाही औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण: 2001 से प्रवृत्ति* में दी गई है।

इस दौर के परिणामों से स्पष्ट होता है कि कारोबार प्रत्याशा सूचकांक 2008-09 की तीसरी तिमाही में हुए वित्तीय संकट के प्रारंभिक स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि, आगामी तिमाही अर्थात् 2012-13 की तीसरी तिमाही की संभावना में मामूली सुधार हुआ

है। ये सूचकांक वृद्धि के दायरे में बने हुए हैं (अर्थात् 100 से अधिक, जो संकुचन तथा विस्तार का विभाजक है) (सारणी 17, चार्ट 14)।

### III.3.3 उद्योग-वार तथा आकार-वार विश्लेषण

समग्र स्तर पर, जहां एक ओर 2012-13 की तीसरी तिमाही की कारोबारी संभावना में मामूली सुधार हुआ वहीं सीमेंट और खाद्य उद्योगों में आशावादी स्तर में काफी बढ़ोतरी हुई (सारणी 18)।

सारणी 15: लाभ मार्जिन के संबंध में मूल्यांकन तथा प्रत्याशाएं

(प्रतिशत उत्तर) #

सर्वेक्षण तिमाही	कुल उत्तर	वर्तमान तिमाही का मूल्यांकन				अगली तिमाही के लिए प्रत्याशा			
		वृद्धि	कमी	अपरिवर्तित	निवल उत्तर	वृद्धि	कमी	अपरिवर्तित	निवल उत्तर
अक्तू-दिसं 09	1,256	18.1	28.0	54.0	-9.9	20.2	23.0	56.8	-2.8
जन-मार्च 10	1,079	21.7	24.6	53.9	-2.9	21.1	20.1	58.8	1.1
अप्रै-जून 10	1,092	20.2	25.0	54.9	-4.8	22.1	18.9	59.0	3.2
जुला-सितं 10	1,403	21.3	23.9	54.8	-2.5	22.2	19.1	58.7	3.1
अक्तू-दिसं 10	1,561	22.7	23.1	54.2	-0.4	25.2	16.1	58.7	9.2
जन-मार्च 11	1,524	20.8	25.1	54.1	-4.3	25.6	17.2	57.2	8.3
अप्रै-जून 11	1,504	18.2	28.1	53.6	-9.9	22.2	18.4	59.4	3.8
जुला-सितं 11	1,528	15.2	32.3	52.5	-17.1	22.0	19.5	58.5	2.5
अक्तू-दिसं 11	1,450	15.2	32.5	52.4	-17.3	20.3	21.9	57.8	-1.6
जन-मार्च 12	1,234	17.5	28.7	53.8	-11.3	20.1	23.1	56.8	-2.9
अप्रै-जून 12	1,404	15.4	33.3	51.3	-17.9	20.4	21.6	58.0	-1.2
जुला-सितं 12	1,561	16.2	31.2	52.6	-15.1	20.1	23.6	56.3	-3.6
अक्तू-दिसं 12						20.5	21.8	57.7	-1.3

लाभ मार्जिन में 'वृद्धि' होना आशावादिता दर्शाता है।

## सारणी 16: समग्र कारोबारी स्थिति के संबंध में मूल्यांकन तथा प्रत्याशाएं

(प्रतिशत उत्तर) #

सर्वेक्षण तिमाही	कुल उत्तर	वर्तमान तिमाही का मूल्यांकन				अगली तिमाही के लिए प्रत्याशा			
		बेहतर	खराब	अपरिवर्तित	निवल उत्तर	बेहतर	खराब	अपरिवर्तित	निवल उत्तर
अक्टू-दिसं 09	1.256	46.0	10.1	43.9	36.0	47.2	7.4	45.4	39.8
जन-मार्च 10	1.079	50.5	7.4	42.1	43.1	50.4	5.5	44.2	44.9
अप्रै-जून 10	1.092	47.8	7.1	45.0	40.7	47.3	6.1	46.6	41.2
जुला-सितं 10	1.403	46.7	8.0	45.3	38.7	47.6	6.2	46.2	41.5
अक्टू-दिसं 10	1.561	51.4	5.5	43.1	45.9	52.5	5.1	42.4	47.4
जन-मार्च 11	1.524	46.0	7.4	46.6	38.6	54.2	4.1	41.8	50.1
अप्रै-जून 11	1.504	42.8	10.1	47.1	32.6	47.0	5.6	47.4	41.4
जुला-सितं 11	1.528	34.1	15.4	50.5	18.7	46.6	6.8	46.6	39.8
अक्टू-दिसं 11	1.450	35.2	17.5	47.3	17.7	43.1	8.0	48.9	35.2
जन-मार्च 12	1.234	37.8	11.3	50.9	26.5	43.6	10.0	46.5	33.6
अप्रै-जून 12	1.404	32.9	14.6	52.5	18.3	43.0	8.1	49.0	34.9
जुला-सितं 12	1.561	32.8	16.7	50.5	16.1	40.2	9.7	50.1	30.6
अक्टू-दिसं 12						41.4	9.2	49.4	32.2


‘बेहतर’ समग्र कारोबारी स्थिति आशावादिता दर्शाती है।

वहीं, दूसरी तरफ उर्वरक उद्योग की संभावना में कम आशावाद दिखा। बड़ी कंपनियों (उत्पादन मूल्य और प्रदत्त पूंजी के अनुसार) में उनकी छोटी प्रतिपक्षी कंपनियों की तुलना में अधिक आशावाद देखा गया (सारणी 19)।

## III.3.4 उत्पादन का सामान्य स्तर प्राप्त करने में बाधाएं

लगभग 51 प्रतिशत कंपनियों ने जुलाई-सितंबर 2012 तिमाही में उत्पादन का सामान्य स्तर हासिल करने में उत्पादन संबंधी


चार्ट 13: समग्र कारोबारी स्थिति



## सारणी 17: कारोबार प्रत्याशा सूचकांक

तिमाही	मूल्यांकन			प्रत्याशाएं		
	सूचकांक	पिछली तिमाही की तुलना में परिवर्तन	पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन	सूचकांक	पिछली तिमाही की तुलना में परिवर्तन	पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन
जन-मार्च 04	121.4	1.7	3.0	122.2	0.2	2.6
अप्रै-जून 04	118.4	-3.0	8.6	121.5	-0.7	3.7
जुला-सितं 04	116.9	-1.5	2.6	120.0	-1.5	2.9
अक्टू-दिसं 04	122.0	5.1	2.2	121.5	1.5	-0.6
जन-मार्च 05	122.5	0.5	1.1	123.2	1.7	1.0
अप्रै-जून 05	117.5	-5.0	-0.9	120.7	-2.5	-0.8
जुला-सितं 05	114.9	-2.6	-2.0	119.6	-1.1	-0.4
अक्टू-दिसं 05	124.3	9.4	2.3	122.7	3.1	1.2
जन-मार्च 06	120.7	-3.6	-1.8	125.7	3.0	2.5
अप्रै-जून 06	121.8	1.1	4.3	120.5	-5.2	-0.2
जुला-सितं 06	120.7	-1.1	5.8	126.5	6.0	6.9
अक्टू-दिसं 06	123.9	3.2	-0.4	125.3	-1.2	2.6
जन-मार्च 07	127.7	3.8	7.0	126.5	1.2	0.8
अप्रै-जून 07	115.8	-11.9	-6.0	127.5	1.0	7.0
जुला-सितं 07	118.9	3.1	-1.8	121.1	-6.4	-5.4
अक्टू-दिसं 07	115.9	-3.0	-8.0	124.4	3.3	-0.9
जन-मार्च 08	122.8	6.9	-4.9	118.6	-5.8	-7.9
अप्रै-जून 08	116.2	-6.6	0.4	123.2	4.6	-4.3
जुला-सितं 08	113.4	-2.8	-5.5	122.1	-1.1	1.0
अक्टू-दिसं 08	104.1	-9.3	-11.8	118.9	-3.2	-5.5
जन-मार्च 09	82.6	-21.5	-40.2	111.9	-7.0	-6.7
अप्रै-जून 09	99.4	16.8	-16.8	96.4	-15.5	-26.8
जुला-सितं 09	107.2	7.8	-6.2	109.9	13.5	-12.2
अक्टू-दिसं 09	112.8	5.6	8.7	116.4	6.5	-2.5
जन-मार्च 10	118.5	5.7	35.9	120.6	4.2	8.7
अप्रै-जून 10	115.9	-2.6	16.5	119.8	-0.8	23.4
जुला-सितं 10	119.0	3.1	11.8	118.8	-1.0	8.9
अक्टू-दिसं 10	122.8	3.8	10.0	126.5	7.7	10.1
जन-मार्च 11	122.0	-0.8	3.5	125.9	-0.6	5.3
अप्रै-जून 11	116.3	-5.7	0.4	121.9	-4.0	2.1
जुला-सितं 11	109.4	-6.9	-9.7	121.5	-0.4	2.7
अक्टू-दिसं 11	110.1	0.8	-12.7	118.8	-2.7	-7.7
जन-मार्च 12	114.9	4.8	-7.1	117.2	-1.6	-8.7
अप्रै-जून 12	107.4	-7.5	-8.9	116.8	-0.4	-5.1
जुला-सितं 12	103.8	-3.6	-5.5	114.0	-2.8	-7.6
अक्टू-दिसं 12				115.7	1.7	-3.1

चाट 14: कारोबार प्रत्याशा सूचकांक



बाधाएं रिपोर्ट कीं। रिपोर्ट की गई प्रमुख बाधाओं में घरेलू मांग में कमी (42.9%), आर्थिक माहौल की अनिश्चितता (41.3%), निर्यात मांग की कमी (34.1%) उर्जा की कमी (39.4%) और कार्यशील पूंजी वित्त की कमी (33.4%) शामिल हैं। उद्योग-वार

सारणी 18: उद्योग-वार महत्वपूर्ण कारोबारी मानदंडों की संभावना

(निबल उत्तर, प्रतिशत में)

उद्योग का नाम	उत्पादन		आदेश बहियां		वित्त की उपलब्धता		कच्चे माल की लागत		वित्त की लागत		लाभ मार्जिन	
	58वां दौर	59वां दौर	58वां दौर	59वां दौर	58वां दौर	59वां दौर	58वां दौर	59वां दौर	58वां दौर	59वां दौर	58वां दौर	59वां दौर
खाद्य उत्पाद	22.0	44.3	22.9	33.6	16.2	28.6	-50.4	-58.6	-15.1	-14.7	-9.0	2.9
वस्त्रोद्योग	23.6	28.3	20.4	30.3	11.8	11.6	-35.2	-40.2	-23.6	-21.9	-6.7	0.0
मूल धातु और धातुओं के उत्पाद	27.8	25.5	24.9	16.1	17.4	11.7	-54.8	-43.1	-26.3	-21.6	-2.1	-10.9
इलेक्ट्रिकल मशीनरी	38.8	41.7	44.2	35.5	19.8	17.6	-48.0	-46.6	-20.2	-22.0	-9.0	0.9
अन्य मशीनरी (इलेक्ट्रिकल मशीनरी से इतर) और उपकरण	30.8	29.3	27.8	24.3	19.1	20.6	-58.3	-50.0	-28.2	-16.0	-11.4	-11.4
परिवहन उपकरण	41.7	38.9	37.0	30.9	33.3	30.3	-51.0	-46.8	-21.1	-16.0	-1.1	-5.5
उर्वरक	60.6	22.6	50.0	20.8	27.8	25.8	-45.7	-35.5	-19.4	-31.0	17.6	6.7
फार्मास्यूटिकल और औषधि	47.1	41.4	45.5	31.9	19.3	18.4	-66.7	-63.0	-25.0	-19.1	-4.6	0.0
मूल रसायन	50.0	44.1	40.7	35.3	28.6	26.3	-42.1	-48.3	-24.7	-27.7	10.3	5.2
रबड़ और प्लास्टिक के उत्पाद	47.7	45.1	32.5	50.6	28.4	32.6	-58.4	-51.1	-33.7	-29.5	11.5	4.3
कागज और कागज के उत्पाद	42.9	44.2	23.1	38.1	22.0	23.3	-57.1	-42.2	-37.5	-25.0	14.0	-2.3
सीमेंट	0.0	41.9	0.0	32.1	-3.8	20.0	-61.5	-35.5	-11.5	-10.0	-19.2	6.5
लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	43.8	33.3	40.0	35.7	11.8	26.7	-66.7	-84.6	-25.0	-40.0	11.8	16.7
विविधकृत कंपनियां	0.0	42.9	37.5	43.8	18.2	15.0	-63.6	-66.7	-55.6	-15.8	-10.0	15.0
अन्य उद्योग	27.6	34.4	23.4	28.6	26.5	27.4	-50.4	-49.6	-18.6	-17.4	-14.9	3.8
सभी उद्योग	33.6	35.7	29.9	30.3	20.4	21.3	-51.4	-48.6	-24.0	-20.6	-3.6	-1.3

**सारणी 19: उत्तर देने वाली कंपनियों के आकार (पीयूसी-वार तथा वार्षिक उत्पादन-वार) के आधार पर महत्वपूर्ण कारोबारी मानदंडों के लिए मूल्यांकन**

(निवल उत्तर, प्रतिशत में)

आकार		उत्पादन		आदेश बहियां		वित्त की उपलब्धता		कच्चे माल की लागत		वित्त की लागत		लार्भ मार्जिन	
		58वां दौर	59वां दौर	58वां दौर	59वां दौर	58वां दौर	59वां दौर	58वां दौर	59वां दौर	58वां दौर	59वां दौर	58वां दौर	59वां दौर
पीयूसी-वार	छोटे	24.9	18.4	17.0	14.2	10.2	13.5	-57.5	-55.0	-21.6	-20.7	-10.8	-13.4
	मध्यम	35.6	38.6	32.7	33.1	23.1	22.8	-50.2	-47.6	-24.9	-20.6	-2.7	-0.4
	बड़े	34.2	44.6	31.7	35.9	14.1	22.6	-48.7	-43.9	-18.9	-19.5	8.0	10.0
वार्षिक उत्पादन-वार	छोटे	28.9	31.5	25.5	24.3	15.5	16.3	-55.6	-54.7	-24.1	-23.6	-10.3	-8.0
	मध्यम	39.5	37.7	34.0	33.4	26.1	24.7	-49.2	-44.6	-26.7	-19.8	1.3	-1.3
	बड़े	29.6	42.5	31.5	39.2	17.4	25.9	-44.3	-42.1	-13.9	-13.6	3.0	11.5

छोटी कंपनियां (वार्षिक उत्पादन ₹1 बिलियन से कम/ पीयूसी ₹10 मिलियन से कम)।

मध्यम कंपनियां (वार्षिक उत्पादन ₹1 बिलियन से ₹10 बिलियन के बीच/ पीयूसी ₹10 मिलियन से ₹1 बिलियन तक)।

बड़ी कंपनियां (वार्षिक उत्पादन ₹10 बिलियन से ऊपर/ पीयूसी ₹1 बिलियन से ऊपर)।

विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 'टेक्सटाइल', 'मूल धातु तथा धातु की तुलना में उत्पादन संबंधी अधिक बाधाओं का सामना किया के उत्पाद', 'गैर इलेक्ट्रिकल' और 'खाद्य उत्पाद' ने अन्य उद्योगों (सारणी 20)।

**सारणी 20: उत्पादन का सामान्य स्तर प्राप्त करने में बाधाएं - उद्योग-वार**

	उत्पादन संबंधी बाधाएं			
	नहीं		हां	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
खाद्य उत्पाद	70	49.6	71	50.4
टेक्सटाइल	76	37.3	128	62.7
मूल धातु तथा धातुओं के उत्पाद	73	36.5	127	63.5
इलेक्ट्रिकल मशीनरी	60	50.0	60	50.0
अन्य मशीनरी और उपकरण	87	45.8	103	54.2
परिवहन उपकरण	48	43.6	62	56.4
उर्वरक	22	71.0	9	29.0
फार्मास्यूटिकल तथा औषधि	65	64.4	36	35.6
मूल रसायन	68	57.6	50	42.4
रबड़ तथा प्लास्टिक की वस्तुएं	51	53.1	45	46.9
कागज तथा कागज उत्पाद	23	51.1	22	48.9
सीमेंट	17	54.8	14	45.2
लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	7	46.7	8	53.3
विविधकृत कंपनियां	15	71.4	6	28.6
अन्य उद्योग	86	62.3	52	37.7
<b>सभी उद्योग</b>	<b>768</b>	<b>49.2</b>	<b>793</b>	<b>50.8</b>